



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 100) पटना, बृहस्पतिवार, 2 अप्रील 2009

सं0 वि0(27))पे0को0-78/05-2796 वि0(2),

वित्त विभाग

संकल्प

1 अप्रील 2009

विषय- लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक- 218/6/2009/EPS/दिनांक 17 फरवरी 2009 द्वारा दिये गए निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-7445/2001 में दिनांक 1 जुलाई 2002 को पारित आदेश तथा एल0पी0ए0 सं0 241/2002 एवं 855/2002 में दिनांक 16 अप्रील 2003 को पारित आदेश के आलोक में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए इस विषय पर लिये गये निर्णय के आलोक में लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के लिए सम्यक विचारोंपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं :-

1. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किसी चुनाव कर्मी या सुरक्षाकर्मी की कर्तव्य के दौरान हिंसात्मक घटना, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु की स्थिति में 10,00,000 (दस लाख) रुपये अनुग्रह अनुदान मृतक के आश्रित को दिया जायेगा । केन्द्रीय पुलिस कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उन्हें मात्र 2.50 लाख रुपये का ही अनुग्रह अनुदान देय होगा, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पुलिस कर्मियों को ऐसी घटनाओं के लिए 7.50 लाख रुपये का अनुदान अलग से दिया जाता है । यदि केन्द्रीय सरकार 2.50 लाख से अधिक अनुग्रह अनुदान देती है तो राज्य सरकार 10,00,000 (दस लाख) रुपये तक की सीमा तक की अन्तर राशि का भुगतान करेगी ।

2. उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान चुनाव कार्य के दौरान हिंसात्मक घटना/दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी देय होगा, परन्तु यह कि चुनाव कार्य के दौरान हिंसात्मक घटना/दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में उपर्युक्त कंडिका-1 में अंकित अनुग्रह अनुदान की 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। आंशिक विकलांगता/एक अंग/एक अंग से अधिक अंगों की विकलांगता की स्थिति तभी प्रभावी होगी जब कुल विकलांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत हो। विकलांगता के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

3. सक्षम पदाधिकारी द्वारा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी व्यक्ति उपर्युक्त प्रावधानों से आच्छादित होंगे, जैसे कि कोई पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चालक (चुनाव के लिए अधिगृहित वाहनों के निजी चालक/मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति), पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य इत्यादि।

4. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक- 218/6/2009/EPS/दिनांक 17 फरवरी 2009 द्वारा निर्वाचन कर्तव्य को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"A person is to be treated on election duty as soon as he leaves his residence/office to report for any election related duty including training and until he reaches back his residence/office after performance of his election related duty. If any mishap takes place during this period, it should be treated as having occurred on election duty subject to condition that there should be a causal connection between occurrence of death/injury and the election duty."

5. उपरोक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा दी जायेगी।

6. इस मद में होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष 2015- निर्वाचन" के अन्तर्गत संबंधित निर्वाचन उपशीर्ष के विषय शीर्ष "कार्यालय व्यय" से विकलनीय होगा।

7. जिन सरकारी सेवकों को इस संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या- वि०(27)पे०को०-78/05-2411, दिनांक 12 नवम्बर 2005 द्वारा देय अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। इसके अलावा इस संकल्प में देय सुविधायें मृत सरकारी सेवकों को देय अन्य सेवा सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अरूनीश चावला,
अपर वित्त आयुक्त(व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 100-571+10-डी०टी०पी०।